

=====

AVYAKT MURLI

08 / 10 / 81

=====

08-10-81 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

"ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा"

विजयी रत्न ब्राह्मण कुल-भूषण बच्चों के प्रति बापदादा बोले-

"आज बापदादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजय-दशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात् विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? "भरत मिलाप"। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई-भाई की दृष्टि की निशानी है - सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाए राज-तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजय दशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहाँ तक पहुँचे हो? अष्टमी मनाई है? सभी नौ दुर्गा बन गये हैं? अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। सर्व

शक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, ऐसे नौ दुर्गा बने हैं? दुर्गा अर्थात् दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण सम्पन्न। तब ही दशहरा मना सकते हो। तो बापदादा देखने आये हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है? हर एक अपने आपको अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है! अविनाशी तीली लगाई है या अल्प समय की तीली लगाई है? रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया है? रावण को समाप्त किया है वा रावणराज्य को समाप्त किया है?

आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह-रिहान चल रही थी- किस समय? (क्लास के समय) बापदादा भी बच्चों की रूह-रिहान सुनते हैं। सभी मैजारिटी बच्चों को जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है, तो न 'ना' में हाथ उठाते न 'हाँ' में हाथ उठाते हैं। अगर लिखते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते, लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। तीन-चार जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई न कोई जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह-रिहान चल रहीं थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों को आह्वान कर रहे हैं। लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही हैं। क्लास के समय बच्ची (दादी) प्रश्न पूछ रहीं थी और बापदादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया। सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता

सम्पन्न संस्कार को जानते हो? विशेषता के संस्कार का ही पार्ट बजाया, अब वह क्या होगा? उस बात का सम्बन्ध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन से सम्बन्धित है। जब रिजल्ट देखी तो एक सेकेण्ड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गये और बोले- आज एक बात जमारी पूर्ण करनी पड़ेगी, कौन सी? ब्रह्मा बाप ने बोला, "आज हमें चाबी दे दो।" कौन-सी? सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, सम्पन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खज़ाना है, चाबी है बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज सम्पन्न बनाने की चाबी की बाप से माँगनी की। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रूह-रूहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं? और ब्रह्मा को बाप ना कर सकते हैं? बच्चे भी न तो 'ना' करते हैं न 'हाँ' करते हैं।

लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा सम्पन्न देखने की बहुत-बहुत इच्छा है। बनने हैं, यह नहीं अब बन जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती, ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको सम्पन्न बनाए दीपमाला जगा दें। ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगता, वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, न बच्चों के। "कब कर लेंगे" - यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात

में अब किया और कराया। सेवा के प्लैन में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो, अभी-अभी जाओ, अभी-अभी करो, ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जायेगी। तो क्या संस्कार रहा? अभी-अभी, कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा "अभी-अभी" की सुनी ऐसे ही आज भी वतन में, अभी-अभी होना चाहिए, यही भाषा चल रही थी। एक और हंसी की बात सुनाते हैं, वह क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं सम्पन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते कि बच्चे "कब-कब" क्यों करते हैं? इसलिए बार-बार बाप को कहते - यह क्यों नहीं बदलते, यह ऐसे क्यों करते हैं? अब तक यह क्यों कहते हैं? आश्चर्य लगता है। ड्रामा की बात अलग रही, यह रमणीक हंसी की बात है। ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं लेकिन देख-देख कर स्नेह के कारण बाप से हँसते हैं। बाप से हँसी करना तो छुट्टी है ना! बाप भी मुस्कुराते हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं, यह तो जान लिया ना? अब मुक्त बन, मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो - यह है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। पहले यह दीवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जगाओ। इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जायेगी। समझा? अच्छा-

फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनायेंगे। अच्छा- ऐसे बापदादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली लगाए अविनाशी विजयी बनने वाले, साकार बाप के समान सदा "अब" की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त,

सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बापदादा का यादप्यार और नमस्ते।

कुमारियों से :- “कुमारियाँ तो हैं ही उड़ता पंछी। क्योंकि कुमारियाँ अर्थात् सदा हल्की। कुमारी अर्थात् कोई बोझ नहीं। हल्की चीज़ ऊपर जायेगी ना! सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली। तो ऐसी हो? कहाँ तक पहुँची हो? जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अन्दर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अन्दर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएं हो ना? पक्का? लकीर के बाहर पाँव निकाला तो रावण आ जायेगा। रावण इन्तजार में रहता है-कि कहाँ कोई पाँव निकाले और मैं भगाऊं! तो कुमारी अर्थात् सच्ची सीता। यहाँ से बाहर जाकर बदल न जाना। क्योंकि मधुबन में वायुमण्डल के वरदान का प्रभाव रहता, यहाँ एकस्ट्रा लिफ्ट होती है, वहाँ मेहनत से चलना पड़ेगा। कुमारियों को देखकर बापदादा को हजार गुणा खुशी होती है क्योंकि कसाईयों से बच गई। तो खुशी होगी ना! अच्छा-अभी पक्का वादा करके जाना।”

पाण्डवों से :- “सभी पाण्डव शक्ति स्वरूप हो ना? शक्ति और पाण्डव कम्बाईन्ड हो? सर्वशक्तितवान के आगे शक्ति बन जाते और पार्ट बजाने में पाण्डव। सर्वशक्तितवान को शक्ति बन कर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आयेगा। आत्मा सीता है और वह राम है। तो इस पार्ट में भी बहुत मजा है। यही पार्ट सबसे वन्डरफुल है संगम का, जो पाण्डव शक्तियाँ बन जाती

और शक्तियाँ भाई बन जाती। इससे सिद्ध होता है कि देहभान भूल गये। आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं, कभी मेल का कभी फिमेल का पार्ट तो बजाया है ना! संगम पर मजा है, आशिक बन माशुक को याद करना। शक्ति बनकर सर्वशक्तित्वान को याद करना। सीता बनकर राम को याद करना।"

माताओ से :- "शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है ना? शक्ति का श्रंगार ही है शस्त्र। जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी, वरदानी हैं। सब शस्त्र कायम रहते हैं? कभी-कभी नहीं, सदा। शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तित्वान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तित्वान को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम मे वरदान देते जाओ, शुभ भावना से सबको वरदान देना है।

सुख के सागर के बच्चे सदा सुख-स्वरूप हो ना? सदा मिलन मेले की खुशी में झुलते रहते हो ना! खाते, पीते, चलते अशोक अर्थात् संकल्प मात्र में भी शोक व दुःख की लहर न आये। सदा सुख-स्वरूप। दुःख को तलाक देने वाले। क्योंकि दुःख की दुनिया मे आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। सुख का सागर मिला तो दुःख काहे का? सदा सुखी - यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गया। अच्छा"

=====

## QUIZ QUESTIONS

=====

प्रश्न 1 :- आज बापदादा विजय-दशमी पर क्या देख रहे हैं?

प्रश्न 2 :- आज वतन में ब्रह्मा बाप की क्लास के समय क्या रूह-रिहान चल रही थी?

प्रश्न 3 :- ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता वह कौन सा?

प्रश्न 4 :- कुमारियाँ से बाबा ने क्या कहा है?

प्रश्न 5 :- पाण्डवों को बाबा ने क्या कहा है?

### FILL IN THE BLANKS:-

(आधा, दीपमाला, शुभ, दीपक, यादगार, अष्टमी, सुख, लहर, सम्पन्न, शस्त्रधारी, स्वत, वरदानी, तलाक, श्रंगार, सूरत)

1 \_\_\_\_\_ के सिवाए राज-तिलक नहीं कर सकते। तो आज का \_\_\_\_\_ विजय दशमी मनाई है। इसका आधार पहले \_\_\_\_\_ मनाते हैं।

2 ब्रह्मा की \_\_\_\_\_ दीपमाला के समान बन जाती, ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची \_\_\_\_\_ पैदा होती जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको \_\_\_\_\_ बनाए दीपमाला जगा दें।

म

3 पहले यह दीवाली मनाओ, बाप के \_\_\_\_\_आशा का दीपक जगाओ। इसी एक \_\_\_\_\_ से दीपमाला \_\_\_\_\_ ही जग जायेगी।

4 शक्ति का \_\_\_\_\_ ही है शस्त्र। जो सदा \_\_\_\_\_ है वही सदा महादानी, \_\_\_\_\_ हैं।

5 दुःख को \_\_\_\_\_ देने वाले। क्योंकि दुःख की दुनिया में \_\_\_\_\_ कल्प रहे, अब तो \_\_\_\_\_ की बारी है

सही-गलत वाक्यों को चिह्नित करें:- **【✓】** **【✗】**

1 :- सर्व शक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, ऐसे नौ दुर्गा बने हैं? दुर्गा अर्थात् दुर्गुण कम कर सर्वगुण सम्पन्न।

2 :- अब मुक्त बन, मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो

3 :- ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं लेकिन देख-देख कर जिम्मेवरी के कारण बाप से हँसते हैं।

4 :- शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को गुप्त करना है।

5 :- खाते, पीते, चलते अशोक अर्थात् संकल्प मात्र में भी शोक व दुःख की लहर न आये। सदा सुख-स्वरूप।

---

## QUIZ ANSWERS

---

प्रश्न 1 :- आज बापदादा विजय-दशमी पर क्या देख रहे हैं?

उत्तर 1 :- आज बापदादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजय-दशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात् विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद भरत मिलाप" स्टेज हो जाती है उसकी निशानी है यह ब्रदरहुड की स्थिति। भाई-भाई की दृष्टि की निशानी है - सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी दीपमाला दिखाई है।

प्रश्न 2 :- आज वतन में ब्रह्मा बाप की क्लास के समय क्या रूह-रिहान चल रही थी?

उत्तर 2 :- क्लास के समय बापदादा भी बच्चों की रूह-रिहान सुनते हैं। सभी मैजारिटी बच्चों को जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है, तो न 'ना' में हाथ उठाते न 'हाँ' में हाथ उठाते हैं। अगर लिखते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते, लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। तीन-चार जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई न कोई जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह-रिहान चल रहीं थी। लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही हैं। जब रिजल्ट देखी तो एक सेकेण्ड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गये और ब्रह्मा बाप ने बोला, "आज हमें चाबी दे दो।" कौन-सी? सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, सम्पन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खज़ाना है, चाबी है बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज सम्पन्न बनाने की चाबी की बाप से माँगनी की। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रूह-रूहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना कर सकते हैं? बच्चे भी न तो 'ना' करते हैं न 'हाँ' करते हैं।

प्रश्न 3 :- ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता वह कौन सा?

उत्तर 3 :- ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, न बच्चों के। “कब कर लेंगे” - यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लैन में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो, अभी-अभी जाओ, अभी-अभी करो, ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जायेगी। तो क्या संस्कार रहा? अभी-अभी, कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा “अभी-अभी” की सुनी ऐसे ही आज भी वतन में, अभी-अभी होना चाहिए, यही भाषा चल रही थी।

**प्रश्न 4 :- कुमारियाँ से बाबा ने क्या कहा है?**

उत्तर 4 :- बाबा ने कहा कि :-

① कुमारियाँ तो हैं ही उड़ता पंछी। क्योंकि कुमारियाँ अर्थात् सदा हल्की। कुमारी अर्थात् कोई बोझ नहीं। हल्की चीज़ ऊपर जायेगी ना! सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली।

② जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अन्दर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अन्दर रहने वाली सच्ची सीता हुई।

③ लकीर के बाहर पाँव निकाला तो रावण आ जायेगा। रावण इन्तजार में रहता है-कि कहाँ कोई पाँव निकाले और मैं भगाऊँ! तो कुमारी अर्थात् सच्ची सीता।

④ यहाँ से बाहर जाकर बदल न जाना। क्योंकि मधुबन में वायुमण्डल के वरदान का प्रभाव रहता, यहाँ एकस्ट्रा लिफ्ट होती है, वहाँ मेहनत से चलना पड़ेगा।

प्रश्न 5 :- पाण्डवों को बाबा ने क्या कहा है?

उत्तर 5 :- पाण्डवों को बाबा ने कहा कि :-

① सभी पाण्डव सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते और पार्ट बजाने में पाण्डव। सर्वशक्तिवान को शक्ति बन कर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आयेगा।

② आत्मा सीता है और वह राम है। तो इस पार्ट में भी बहुत मजा है। यही पार्ट सबसे वन्डरफुल है संगम का, जो पाण्डव शक्तियाँ बन जाती और शक्तियाँ भाई बन जाती। इससे सिद्ध होता है कि देहभान भूल गये।

③ आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं, कभी मेल का कभी फिमेल का पार्ट तो बजाया है ना! संगम पर मजा है, आशिक बन माशुक को याद करना। शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करना।

## FILL IN THE BLANKS:-

(आधा, दीपमाला, शुभ, दीपक, यादगार, अष्टमी, सुख, लहर, सम्पन्न, शस्त्रधारी, स्वत, वरदानी, तलाक, श्रंगार, सूरत)

1 \_\_\_\_\_ के सिवाए राज-तिलक नहीं कर सकते। तो आज का \_\_\_\_\_ विजय दशमी मनाई है। इसका आधार पहले \_\_\_\_\_ मनाते हैं।

दीपमाला / यादगार / अष्टमी

2 ब्रह्मा की \_\_\_\_\_ दीपमाला के समान बन जाती, ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची \_\_\_\_\_ पैदा होती जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको \_\_\_\_\_ बनाए दीपमाला जगा दें।

सूरत / लहर / सम्पन्न

3 पहले यह दीवाली मनाओ, बाप के \_\_\_\_\_ आशा का दीपक जगाओ। इसी एक \_\_\_\_\_ से दीपमाला \_\_\_\_\_ ही जग जायेगी।

शुभ / दीपक / स्वतः

4 शक्ति का \_\_\_\_\_ ही है शस्त्र। जो सदा \_\_\_\_\_ है वही सदा महादानी, \_\_\_\_\_ हैं।

श्रंगार / शस्त्रधारी / वरदानी

5 दुःख को \_\_\_\_\_ देने वाले। क्योंकि दुःख की दुनिया में \_\_\_\_\_ कल्प रहे,  
अब तो \_\_\_\_\_ की बारी है।

तलाक / आधा / सुख

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करें:- [✓] [✗]

1 :- सर्व शक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, ऐसे नौ दुर्गा बने हैं?  
दुर्गा अर्थात् दुर्गुण कम कर सर्वगुण सम्पन्न। [✗]

सर्व शक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, ऐसे नौ दुर्गा बने हैं?  
दुर्गा अर्थात् दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण सम्पन्न।

2 :- अब मुक्त बन, मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी  
बनो । [✓]

3 :- ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं लेकिन देख-देख कर जिम्मेवारी के  
कारण बाप से हँसते हैं। [✗]

ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं लेकिन देख-देख कर स्नेह के कारण बाप से हँसते हैं।

4 :- शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को गुप्त करना है। 【✖】

शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है।

5 :- खाते, पीते, चलते अशोक अर्थात् संकल्प मात्र में भी शोक व दुःख की लहर न आये। सदा सुख-स्वरूप। 【✓】